

प्रेस-विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह

द्वारा चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तार व

बरामदगी हेतु अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थानों द्वारा किये गये सराहनीय कार्य-

थाना अतरौलियातमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

दिनांक-22-12-2020 को SSI माखन सिंह मय हमराह द्वारा क्षेत्र भ्रमण व चेकिंग के अभियान के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 142/20 धारा 452/504 IPC से सम्बन्धित अभियुक्त सौरभ यादव पुत्र बलिराम यादव निवासी पेड़रा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को छितौनी चौराहे के पास से समय 11.30 बजे गिरफ्तार कर कब्जे से एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया जिसका चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

थाना तरवां1 किलों सौ ग्राम गाँजा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 22.12.2020 को उ0नि0 श्री ओमप्रकाश नारायण सिंह मय हमराह चौकी क्षेत्र बोंगरिया में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास की सूचना पर कि एक व्यक्ति गाँजे के साथ कही जा रहा है। इस सूचना उ0नि0 मय हमराह द्वारा बोंगरिया के पास मौजूद व्यक्ति को पकड़कर तलाशी ली गयी तो गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 1 किलो 100 ग्रा0 नाजायज गाँजा बरामद हुआ। अभियुक्त ने अपना नाम वृजेश यादव पुत्र स्व0 राजदेव .यादव निवासी ग्राम खजुरा फुलाईच थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़ उम्र 34 वर्ष बताया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 200/2020 धारा 8/20 NDPS ACT पर पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना- जीयनपुर3 किलों सौ ग्राम गाँजा व चोरी की मोटरसाईकिल के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 22-12-20 को SSI संजय सिंह मय SI श्री उमेश कुमार मय हमराह देखभाल क्षेत्र रात्रि गस्त तलाश वांछित अभि0 बुझारत यादव निवासी भरौली सम्बन्धित मु0अ0सं0 357/20 धारा 147,148,323,504,506,308 IPC में व समय 1:10 बजे रवाना होकर रात्रि गस्त व दबिश करते हु ए वापस थाना आ रहे थे कि नरहन तिराहा पर पहुंचे कि मो0सा0 पर दो व्यक्ति आंखेपुर की तरफ से आते हुए हम लोगों के पास पहुँचे कि पुलिस वालों को देख कर सकपकाकर मो0सा0 पिछे मोडकर भागना चाहे कि फिसलकर मो0सा0 से गिर गये जिससे गाड़ी। मो0सा0 की हेड लाइट टूट गयी कि शक होने पर हम लोगों ने दोनों को दौड़ाकर तिराहे से 20-25 कदम की दूरी आंखे पुर की तरफ गेहूँ के खेतों में पकड़ लिया नाम पता पूछाँ तो एक ने अपना नाम गुलाब साहनी पुत्र राजनाथ उर्फ टिल्लू साहनी निवासी वार्ड नं0 5 सलोना पम्प अजमतगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ बताया जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है तथा दूसरे ने अपना नाम बलिराम निषाद पुत्र शिवचरन साहनी निवासी ग्राम धरौली थाना घोसी जनपद मऊ बताया तथा मौके पर पड़ी मो0सा0 डिसकवर दोनो से भागने के सम्बन्ध में पूछा गया तो अपना नाम क्रमश- 1. गुलाब साहनी पुत्र राजनाथ उर्फ टिल्लू साहनी निवासी वार्ड नं0 05 सलौना पम्प अजमतगढ़ थाना जीयनपुर आजमगढ़ 2. बलिराम निषाद पुत्र शिवचरन साहनी निवासी धरौली थाना घोसी जनपद मऊ बताया। गिरफ्तार अभियुक्तों की तलाशी ली गयी तो उनके पास से 3 किलो 100 ग्राम नजायज गाँजा व 01 अदद चोरी की मोटर साईकिल बरामद हुई। गिरफ्तार दोनो अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना सिधारीएक नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 21.12.2020 को वादी श्री रामचन्द्र चौहान पुत्र स्व राम सुराती चौहान थाना सिधारी आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक तहरीर बाबत खुद की लड़की शौच के लिये गई कि अभि0 धीरज चौहान द्वारा हाथ पकड़कर खीचने व छेड़ना तथा पीड़िता के भाई द्वारा देख लिये जाने पर मारना पीटना के सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज कराये।

उ0नि0 मिथलेश कुमार मय हमराहीगण के साथ थाना स्थानीय से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित अभियुक्त में भ्रमणशील होकर छतवारा चौराहे पर मामूर थे कि उसी समय मुखबिर खास आकर सूचना दिये कि वांछित अभियुक्त धीरज चौहान की तलाश कर रहे है वह शाहगढ़ बाजार में मौजूद है। कही भागने के फिराक में है। यदि जल्दी किया जाय तो पकड़े जा सकते है। मुखबिर खास की बात को विश्वास करके मुखबिर खास को साथ लेकर मय हमराहियान के साथ शाहगढ़ बाजार से पहले रुके तो मुखबिर खास ने इशारा किया कि साहब वह हरे रंग का स्वेटर पहने व नीले रंग की जिन्स पहने लड़के की ओर इशारा करते हुए हट गया। जैसे ही हम पुलिस वाले उपरोक्त स्वेटर पहने व नीले रंग की जिन्स पहने लड़के के पास पहुंचे तो देखकर भागने लगा तो हम पुलिस वाले एक वारगी पकड़ लिया गया पकड़े गये ब्यक्तियों से क्रमशः नाम पता पूछा गया तो एक ब्यक्ति ने धीरज

चौहान पुत्र राधे चौहान सा0 शाहगढ़ थाना सिधारी आजमगढ़ बताये पकडे गये ब्यक्तियो का अपराध का बोध कराकर दिनांक 22.12.20.20 को समय 12.00 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय किया गया ।